

**MAYUR UNIQUOTERS LIMITED**

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2024-25/64**Date: September 13, 2024**

To,

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
(Maharashtra)
(Scrip Code: 522249)

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor C/1, G-Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra(East), Mumbai – 400051
(Maharashtra)
(Trading Symbol: MAYURUNIQ)

Subject: Buy back of upto 5,00,000 Equity shares of Mayur Uniquoters Limited ("the Company") through Tender Offer in terms of SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto.

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copy of the public announcement published in all editions of Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Prathkal (Hindi), in today's Newspaper i.e. September 13, 2024.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Mayur Uniquoters Limited

Pawan Kumar Kumawat
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A25377

Encl: As above

A Texture For Every Idea

**Correspondance Address:**

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423

Regd. Office & Works: Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420

Email: info@mayur.biz • www.mayuruniquoters.com

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN: L18101RJ1992PLC006952

Registered Office: Village, Jaipur, Jaipur-Sikar Road Place, Jaipur, Rajasthan 303 704 | **Tel. No.:** 01423-224001
Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.I. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan | **Tel. No.:** 0141-2361132
Contact Person: Mr. Pawan Kumar Kumawat, Company Secretary and Compliance Officer
Email: secr@mayur.biz | **Website:** www.mayuruniquoters.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(iv) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended from time to time (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated August 09, 2024 published on August 12, 2024 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated August 26, 2024 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUY BACK**
- Mayur Uniquoters Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 5,00,000 (Five Lakh) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 5/- (Rupees Five Only) each ("Equity Shares") from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. Friday, August 23, 2024), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share payable in cash, for an aggregate amount of Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crores Only), excluding Transaction Cost ("Buyback Size"). The Buyback Size constituted 4.62% and 4.57% of the paid-up equity share capital and free reserves as per the latest standalone and consolidated audited financial statements of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2024 and was within the statutory limit of 10% under the Companies Act, 2013 (the "Act") and represents 1.14% of the total number of equity shares in the total paid-up equity share capital of the Company.
- The Company has adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- The Buy Back Offer was kept open from Thursday, August 29, 2024 to Wednesday, September 04, 2024.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

- 5,00,000 (Five Lakh) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share.
- The total amount utilized in the Buyback is Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crores Only), excluding Transaction Cost.
- The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("Registrar"), considered 37,441 valid applications for 64,31,368 Equity Shares in response to the Buy Back offer resulting in the subscription of approximately 12.86 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	75,000	34,658	5,39,169	718.89%
General Category for all other Equity Shareholders	4,25,000	2,783	58,92,199	1386.40%
Total	5,00,000	37,441	64,31,368	1286.27%

- All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar via e-mail to the relevant eligible Equity Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or the depositories) on September 11, 2024. In cases where email IDs were not registered with the Company or the depositories and email bounce cases, physical letters of acceptance/rejection has been dispatched to the Eligible Shareholders on September 12, 2024 by the Registrar.
- The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited on September 11, 2024. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/Relevant Bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on September 11, 2024. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders/lien removed by Clearing Corporation on September 11, 2024.
- The extinguishment of 5,00,000 Equity Shares accepted under the Buy Back, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before September 23, 2024.
- The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company, pre and post Buy Back is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback ⁽¹⁾	
		No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)
1.	Authorized Share Capital	Rs. 25,00,00,000 divided into 5,00,00,000 Equity Shares of face value Rs 5/- each	2,500.00	Rs. 25,00,00,000 divided into 5,00,00,000 Equity Shares of face value Rs 5/- each	2,500.00
		Rs. 61,00,00,000 divided into 15,25,00,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6,100.00	Rs. 61,00,00,000 divided into 15,25,00,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6,100.00
		Total	8,600.00	Total	8,600.00
		4,39,52,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2,197.63	4,34,52,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2,172.63
2.	Issued, Subscribed and Paid up Capital	Total	2,197.63	Total	2,172.63

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares

Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity shares bought back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares ⁽¹⁾ (%)
1.	Suresh Kumar Poddar	1,81,569	36.31	0.42
2.	Manav Poddar	71,522	14.30	0.17
3.	Puja Poddar	7,074	1.42	0.02
4.	ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund	6,023	1.21	0.01
	TOTAL	2,66,188	53.24	0.61

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares

The Shareholding Pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback ⁽¹⁾	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoter & Promoter Group	2,57,20,206	58.52	2,54,59,290	58.59
Foreign Investors (OCBs/ FII/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies)	29,75,641	6.77	1,79,93,310	41.41
Indian Financial Institutions/ Banks/Mutual Funds/ Government Companies	13,47,676	3.07		
Others (Individuals, Bodies Corporate, Employees, etc.)	1,39,09,077	31.65		
Total	4,39,52,600	100.00		

MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED

13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.
Contact Person: Ms. Radhika Pushkama/ Mr. Amitkumar Gattani
Tel.: +91 11 41326121, 40167038;
E-mail: investors@dnafinsebv.com;
Website: www.dnafinsebv.com
SEBI Regd. No. INM000011484
Validity Period: Permanent
CIN: U74899DL1981PTC012709

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents contained and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Sd/-
Suresh Kumar Poddar
Chairman and Managing Director & CEO
DIN: 00022395

Sd/-
Arun Kumar Bagaria
Whole Time Director
DIN: 00373862

Sd/-
Pawan Kumar Kumawat
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. ACS25377

Date: Thursday, September 12, 2024
Place: Jaipur

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the share certificates for under mentioned equity shares of Grasim Industries Limited have been lost / misplaced / stolen and we are applying to the Company to issue duplicate share certificates.

Any person(s) who has/have a claim in respect of the said equity shares should lodge the same with the Company at its Corporate Office at Grasim Industries Limited, Aditya Birla Centre, 'A' Wing, 2nd Floor, S. K. Ahire Marg, Worli, Mumbai - 400 030, Maharashtra within 15 days from the date of publication of this Notice, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the shareholder/claimant without any further intimation and no further claim would be entertained from any person(s).

Folio No.	Name of the Shareholder(s)	No. of Shares	Certificate No.		Distinctive No.	
			No.	From	TO	
133842	Miss Sushma N Patel JT1: Miss Bhagwatiben N Patel	500 (face value of Rs.2 each)	3107055	446448751	446449250	
133843	Mr Nanubhai V Patel JT 1: Miss Sushma N Patel	100 (face value of Rs.2 each)	3107056	446449251	446449350	
133844	Mrs Dhaniben N Patel JT1: Miss Bhagwatiben N Patel	275 (face value of Rs.2 each)	3107057	446449351	446449625	

Name(s) of the Shareholder(s):
(1) MISS SUSHMA N PATEL
JT1: MISS BHAGWATIBEN N PATEL
(2) MR NANUBHAI V PATEL
JT 1: MISS SUSHMA N PATEL
(3) MRS DHANIBEN N PATEL
JT1: MISS BHAGWATIBEN N PATEL

Place: Mumbai
Date: 13/09/2024

PRECISION ELECTRONICS LIMITED

CIN NO.: L32104DL1979PLC009590
Registered office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi - 110025
Email: cs@peil-india.in, **Website:** www.peil-india.in,
Phone: 120 2551556/7, **Fax:** 120 2524337

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING

This Corrigendum is being issued by Precision Electronics Limited, ("Company") for convening 45th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company on Tuesday, September 24, 2024, at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). This Corrigendum is to be read in conjunction with the AGM Notice dated August 7, 2024 as available on the website of the Company and BSE Limited where the shares of the Company are listed. The Notice of the AGM was dispatched to all the shareholders of the Company on September 2, 2024, in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and rules made thereunder, read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. This Corrigendum shall form an integral part of the AGM Notice circulated to the shareholders of the Company.

Accordingly, all concerned Shareholders, Stock Exchange, Depositories, Registrar and Share Transfer Agent, agencies appointed for e-voting, other Authorities, regulators, and all other concerned persons are requested to take note of the below change:

This Corrigendum shall also be available at the website of the Company at www.peil-india.in and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

Item no. 4 of the Notice of the 45th AGM, to include the word "laks" in the salary and hence shall be read as follows:

TO APPOINT MR. ASHOK KUMAR KANODIA, AS WHOLE-TIME DIRECTOR OF THE COMPANY.

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of sections 196, 197 and 198 read with Schedule V and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), approval of the members be and is hereby accorded for the appointment of Mr. Ashok Kumar Kanodia, (DIN: 00002563) as the Whole-time Director of the Company to be designated as an "Executive Chairman", for a period of three years, with effect from August 14, 2024 to August 13, 2027, liable to retire by rotation, on below mentioned terms and conditions:

Salary: Rs. 36 lakhs per annum.

In addition to above, he shall be entitled to the following perquisites, allowances or benefits:

- Medical reimbursement: Medical expenses incurred for himself, in total, that is beyond his current medical insurance coverage and for his family, as per rules of the Company;
- Leave Travel Allowance: For self and his family, as per rules of the Company;
- provision for use of the Company's chauffeur driven car for official duties and telephone at residence (including payment for local calls and long-distance official calls);
- contribution to the provident fund, superannuation fund or annuity fund to the extent these either singly or put together are not taxable under the Income Tax Act, 1961;
- gratuity as per rules of the Company (which shall not exceed one half month's salary for each completed year of service); and
- earned leave with full pay or encashment as per the rules of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT in case the Company has no profits, or its profits are inadequate in any financial year, the Company will pay remuneration by way of salary, benefits, perquisites, allowances, reimbursements and facilities as specified above subject to the provisions of Schedule V of the Act and subject to necessary approvals, if any;

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors (hereinafter referred to as "Board" which term shall include the Nomination and Remuneration Committee of the Board) be and is hereby authorized to revise the remuneration upto 10% of his gross salary per annum for such quantum, periodicity and interval subject to overall limits as prescribed, from time to time, under the Act;

RESOLVED FURTHER THAT the approval of the Company be accorded to the Board of Directors of the Company (including any Committee thereof) to give effect to this resolution."

For Precision Electronics Limited
Sd/-
Veenita Khurana
Company Secretary

Place: Noida
Date: September 12, 2024

CASTROL INDIA LIMITED

CIN: L23200MH1979PLC021359
Registered Office: Technopolis Knowledge Park, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Website: www.castrol.co.in, **E-mail id:** investorrelations.india@castrol.com
Tel.: +91 22 7177 7111 **Fax:** +91 22 6698 4101

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, No. 17/2020 dated 13 April 2020, No. 09/2023 dated 25 September 2023 and other related circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as the "MCA Circulars") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), and pursuant to other applicable laws, if any, approval of the Members of Castrol India Limited is being sought on the following Resolutions through Postal Ballot by remote e-voting ("E-voting") process:

Sr. No.	Particulars	Type of resolution
1.	Appointment of Ms. Satyavati Berera (DIN: 0502709) as an Independent Director of the Company for a term of five consecutive years from 1 October 2024 to 30 September 2029.	Special
2.	Appointment of Mr. Kartikeya Dube (DIN: 00929373) as Non-Executive Nominee Director of the Company.	Ordinary
3.	Appointment of Mr. Kedar Lele (DIN: 06969319) as a Director of the Company.	Ordinary
4.	Appointment of Mr. Kedar Lele (DIN: 06969319) as Managing Director of the Company for a term of five consecutive years from 1 November 2024 to 31 October 2029.	Ordinary

- In accordance with MCA Circulars, the notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement ("Postal Ballot Notice") has been sent via electronic mode on Thursday, 12 September 2024, to all those members whose name appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on Friday, 6 September 2024 ("Cut-off date") and whose e-mail address are registered with the Company / Depositories.
- The Postal Ballot Notice is available on website of the Company at https://www.castrol.com/en_in/india/home/investors/general-meeting.html, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.
- In accordance with the provisions of MCA Circulars, the Members can vote only through the E-voting process. Accordingly, the Company has engaged the services of CDSL for providing E-voting facility to the Members to cast their votes electronically. Further, physical copy of Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope is not being sent to the Members.
- The E-voting period is as follows:

Commencement of E-Voting	Friday, 13 September 2024 from 9:00 A.M. IST
Conclusion of E-Voting	Saturday, 12 October 2024 till 5:00 P.M. IST

- Members are requested to note that E-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Saturday, 12 October 2024 and the facility shall be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- A person whose name appears in the Register of Members/Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall be entitled to avail the facility of E-voting and vote electronically. Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Members as on the Cut-off Date. A person who is not a Member as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.
- Members holding shares in the dematerialized mode, are requested to register their e-mail id and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository Participants. Members holding shares in physical mode can register their e-mail id with the RTA by sending an e-mail to RTA at einward.ris@kfintech.com. Please note that registration of email id and mobile number is mandatory while voting electronically.
- Members holding shares in physical form are requested to update their Nomination and KYC details in accordance with relevant SEBI circulars issued in this regard. The process and formats for updating these details are available on the Company's website at https://www.castrol.com/en_in/india/home/investors/information-for-shareholders.html. Members holding shares in demat mode are requested to update their nomination and KYC details with the relevant depository participant.
- Instructions on the process of E-voting, including the manner in which Members holding shares in physical mode can cast their vote, are provided as part of the Postal Ballot Notice.
- The relevant documents referred to in the Postal Ballot Notice shall be made available for inspection electronically to the Members based on requests received at investorrelations.india@castrol.com mentioning their name, Folio No./DP ID and Client ID, until the last date for receipt of votes through E-voting.
- The Board of Directors at its meeting held on 30 July 2024, appointed Mr. K. G. Saraf, Proprietor of M/s. Saraf and Associates, Company Secretaries (CP No. 642), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through E-voting in a fair and transparent manner.
- The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any one of the Key Managerial Personnel after the completion of scrutiny, and the results of voting by postal ballot through the E-voting process will be announced by the Chairman or any one of the Key Managerial Personnel, on or before Tuesday, 15 October 2024 and will also be displayed on the website of the Company (https://www.castrol.com/en_in/india/home/investors/general-meeting.html), besides being communicated to the Stock Exchanges, Depositories and Registrar and Share Transfer Agent.
- For detailed instructions pertaining to E-voting, Members may please refer to the section "Notes" in Notice of the Postal Ballot. In case of any queries or grievances regarding the E-voting facility of CDSL, the Members may refer the Frequently Asked Questions and E-Voting manual available under the help section at www.evotingindia.com or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futren Mafatall Mill Compound, N M Joshi Marg, Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 21 09911.

For Castrol India Limited
Place: Mumbai Hemangi Ghag
Date: 13 September 2024 Company Secretary & Compliance Officer

PGIM India Asset Management Private Limited

4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 6159 3000, **Fax:** +91 22 6159 3100
CIN: U74900MH2008FTC187029 **Toll Free No.:** 1800 266 7446
Website: www.pgimindiafm.com

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with **September 17, 2024** as the record date: -

Name of the Schemes	Plans / Options	Quantum of IDCW per unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on September 11, 2024 (₹ per unit)*
PGIM India Arbitrage Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0825	10	11.3322
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0831	10	11.4130
PGIM India Hybrid Equity Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1842	10	25.3600
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.2026	10	27.9100
PGIM India Equity Savings Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0734	10	12.9593
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0799	10	14.1226

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

For PGIM India Asset Management Private Limited
(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai
Date : September 12, 2024

Sd/-
Authorized Signatory

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

PUBLIC NOTICE

ICICI Home Finance
Regd. Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051
Shifting of Branch

Notice is hereby given that ICICI Home Finance Company Limited has decided to shift the branch located at 2nd Floor, Shop no. 3, 142, Satyam Palace, New Road, Opp. Balaji Hotel, Do batti, Ratlam - 457001 as a result of recalculation of business. The new branch address is ICICI Home Finance Company Limited, Plot no. 135, 136, 136/1, 136/2, 138, Ujjwala Prime, 1st Floor, Station Road, Ratlam, Madhya Pradesh - 457001 which will be effective from Dec. 2024.

Existing branch will cease to operate after completion of 90 days notice period as per regulatory norms.

For ICICI Home Finance Co. Ltd.
Priyanka Shetty
Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following Share Certificate(s) of face value of Re 1/- each of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED. The shareholder has applied for duplicate share certificate, if no objection is received within 15 days from the date of publication of this notice, we shall consider issue of Duplicate Share Certificates there of:

Folio No.	Name	No. of Equity Shares	Certificate No.(s)	Distinctive No.(s)
AIL005201	Madhavi Latha Gaddipati	3000	273032	90067339 90070338
		1500	373032	135864090 135866589

For Avanti Feeds Limited
Sd/-
C.Ramachandra Rao
JMD, CS & CFO

Place : Hyderabad
Date : 12.09.2024

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Sd/-
Suresh Kumar Poddar
Chairman and Managing Director & CEO
DIN: 00022395

Sd/-
Arun Kumar Bagaria
Whole Time Director
DIN: 00373862

Sd/-
Pawan Kumar Kumawat
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. ACS25377

Date: Thursday, September 12, 2024
Place: Jaipur

C-NTSRUM
Home Loans

आस आसिजि गोद बाडिका

विनामित एवं पंजीकृत कार्यालय : सुचित नं. 801, सेंट्रम हाउस, सीएईनटी मार्ग, विद्यानगर गली मार्ग, क्लीना सातारकून (पूर्व), मुंबई-400098, सीआईएन नं.: U65922MH2016PLC273826

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिपंक्तिगतों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्विभाग तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत।

प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण

क्र. सं.	भ्रमण खाता सं./उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(टै) के नाम/शाखा	कुल बकाया देय राशि(य) (रु.)	एएमपी तिथि धारा 13(2) सूचना तिथि एफलीएल तिथि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	
				धारा 13(2) सूचना तिथि	एफलीएल तिथि
1.	MTCCAG22008174/मुकेश कुमार शर्मा/उमा देवी/मेरठ	रु.18,55,013/- (रुपये अठारह लाख पचपन हजार तेरह मात्र)	07-08-2024 03-09-2024 07-09-2024	अधिकारों के अंतर्गत, अचल संपत्ति वाले घर के मांग एवं अंश— अराजी नंबर 3, अधिमापन 1260 वर्ग फीट, अड़ा प्लॉट पर खंड 49वीं, इटावा, 2060601, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र — पूर्व— प्रमोद का पॉल्ट, उत्तर— परिवार जो का घर, परिसर— 17-0-0” चौड़ी सड़क, दक्षिण— सुगमा सिंह का पॉल्ट	

यदि उक्त उधारकर्ता/गारंटर उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता **सेंट्रम हाउस सीएईनटी लिमिटेड** को भुगतान करने में विफल होंगे, तो **सेंट्रम हाउस सीएईनटी लिमिटेड** उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विक्रय, लगाएँ एवं परिणामों से संबंधित उक्त उधारकर्ताओं से संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेगी। उक्त उधारकर्ताओं को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत किया जाता है कि वे **सेंट्रम हाउस सीएईनटी लिमिटेड** की पूर्व लिखित अनुमति—सहमति के बिना उपर्युक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अपना अथवा अथवा हस्तांतरण नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उक्त करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत अपराधकारियों द्वारा दंड तथा/अथवा अवरोध दिया जाएगा।

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी कृते सेंट्रम हाउस सीएईनटी लिमिटेड

शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएन: L27101HP1984PLC005862

पंजीकृत कार्यालय: -16 18, न्यू हेलीकोप्टर कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट
खिला सोलन एमपी 173213, फ़ोन: +91-011-26027174, 26026362, फ़ैक्स: +91-011-26026776
वेबसाइट: www.shivalikbimetals.com, ईमेल: investor@shivalikbimetals.com

रोयल प्रमाणपत्रों के छोड़ जाने की सार्वजनिक सूचना

एतद्धार यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र जो जाने, गलत जाहद पर रखे जाने या चोरी हो जाने की सूचना मिली है और इसलिए पंजीकृत शेयरधारक ने बुकिंगकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी से आवेदन किया है। जतना को इस प्रकार शेयरारी की जाती है कि वे उल्लिखित शेयर प्रमाणपत्रों को किसी भी तरह से न खरीदें या उनके साथ कोई लेन-देन न करें। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कोई दावा है तो उसे इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए। जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी किसी भी प्रकार के लिए जिम्मेदार नहीं होगी तथा कंपनी बुकिंगकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अभी भी संतुष्ट है।

फोलियो नं.	प्रमाणपत्र नं.	विधिपत्र नं.	रोयल्टी की संख्या	रोयल्टीधारक का नाम
L.000029	00004914 00003927 00000427	37954751 से 37956750 9964201 से 9965200 363501 से 364500	4000	खुशना अदुल्ला

शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./— आदालती साक्षी कंचवीर सचिव

दिनांक: 13-09-2024
स्थान: नई दिल्ली

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

सीआईएन: L32104DL1979PLC009590

पंजीकृत कार्यालय: डी-1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली — 110025
ईमेल: cs@pel-india.in, वेबसाइट: www.pel-india.in, दूरभाष: 120-2551556/7, फ़ैक्स: 120 2524337

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (‘कंपनी’) द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (‘एजीएम’) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 11.00 बजे (रु) सीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘सीडी’) अथवा ऑडियो विडिओ माध्यमों (‘ओएवीएम’) के माध्यम से आयोजित करने के लिए जारी किया जा रहा है। इस शुद्धिपत्र को कंपनी और बीएसई लिमिटेड की उस वेबसाइट पर उपलब्ध 7 अगस्त, 2024 के एजीएम नोटिस के साथ पढ़ा जाना है, जहां कंपनी के शेयर सूलौबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसको सहित बनाए गए नियमों के अनुपालन में, का निवेदन का 15 दिनों के भीतर, 2024 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा दिया गया था। तदनुसार, सभी संबंधित शेयरधारक, स्टॉक एक्सचेंज, डिमोडिलेटर, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, ई-वोटिंग के लिए नियुक्त एजीएम, अन्य प्राधिकरण, निस्साक और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए परिवर्तन पर ध्यान दें। यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा, जहां कंपनी के शेयर सूलौबद्ध हैं। 45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के नव संख्या 4 में वेतन में ‘शान्ध शब्द’ शामिल किया जाएगा और इसलिए इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा: श्री अशोक कुमार कानोडिया को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना। निम्नलिखित संश्लेष पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना: ‘संकल्प लिया गया कि अनुसूची V के साथ पठित धारा 196, 197 तथा 198 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्यों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अध्याय) विनियम, 2015 (इसमें वेतनमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के सभी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री अशोक कुमार कानोडिया (सीआईएन: 00002563) को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ के रूप में नियुक्त करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जो 14 अगस्त, 2024 से 13 अगस्त, 2027 तक प्रभावी रहेगा। नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों पर चोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उपरदायी: वेतन: 36 लाख रुपये प्रति वर्ष। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वे निम्नलिखित सुविधाओं, भत्तों या लाभों का हक्करदार होंगे: क) चिकित्सा प्रतिकृति: कंपनी के नियमों के अनुसार, अपने और अपने परिवार के लिए किए गए कुल चिकित्सा व्यय, जो उसके वर्तमान चिकित्सा बीमा कवरेज से परे है; ख) छुट्टी यात्रा भत्ता: कंपनी के नियमों के अनुसार, अपने और अपने परिवार के लिए। ग) आधिकारिक कर्तव्यों के लिए कंपनी की झडभर वासित कार और निवास पर टैलीग्राफ (स्थानीय कॉल और लंबी दूरी की आधिकारिक कॉल के लिए मुगुतान सहित) के उपकरण के लिए प्रावधान, घ) मासिक निधि, सुपररनुवृषण फंड या वार्षिक निधि में अंशदान, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अकेले या एक साथ कर योग्य नहीं है; ङ) कंपनी के नियमों के अनुसार प्रेष्युटी (जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आगे महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी), और छ) कंपनी के नियमों के अनुसार पूर्ण वेतन या नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश। यह भी प्रस्ताव किया गया कि यदि कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है, या किसी वित्तीय वर्ष में उरकाव नाम अर्थात होता है, तो कंपनी अधिनियम की अनुसूची ट के प्रावधानों के अधीन और आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन ऊपर निर्दिष्ट वेतन, लाभ, अनुलाभ, भत्ते, प्रतिभूति और सुविधाओं के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान करेगी; आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि निदेशक मंडल (जिसे आगे ‘बोर्ड’) कहा जाएगा, जिसमें बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति भी शामिल होगी) को अधिनियम के तहत समय-समय पर निर्वाचित समग्र सीमाओं के अधीन ऐसी मात्र, आवश्यक और अंतःराल के लिए प्रति एवं अपने संकल वेतन के 10- तक के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जाता है; आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल (इसकी किसी समिति सहित) को कंपनी का अनुमोदन प्रदान किया जाए।

कृते प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हस्ता./— विनीता खुराना कंपनी सचिव

दिनांक: 12 सितंबर, 2024
स्थान: नोरख

शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएन: L27101HP1984PLC005862

पंजीकृत कार्यालय: -16 18, न्यू हेलीकोप्टर कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट
खिला सोलन एमपी 173213, फ़ोन: +91-011-26027174, 26026362, फ़ैक्स: +91-011-26026776
वेबसाइट: www.shivalikbimetals.com, ईमेल: investor@shivalikbimetals.com

रोयल्टीधारक के छोड़ जाने की सार्वजनिक सूचना

एतद्धार यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र जो जाने, गलत जाहद पर रखे जाने या चोरी हो जाने की सूचना मिली है और इसलिए पंजीकृत शेयरधारक ने बुकिंगकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी से आवेदन किया है। जतना को इस प्रकार शेयरारी की जाती है कि वे उल्लिखित शेयर प्रमाणपत्रों को किसी भी तरह से न खरीदें या उनके साथ कोई लेन-देन न करें। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कोई दावा है तो उसे इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए। जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी किसी भी प्रकार के लिए जिम्मेदार नहीं होगी तथा कंपनी बुकिंगकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अभी भी संतुष्ट है।

फोलियो नं.	प्रमाणपत्र नं.	विधिपत्र नं.	रोयल्टी की संख्या	रोयल्टीधारक का नाम
L.000029	00004914 00003927 00000427	37954751 से 37956750 9964201 से 9965200 363501 से 364500	4000	खुशना अदुल्ला

शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./— आदालती साक्षी कंचवीर सचिव

दिनांक: 13-09-2024
स्थान: नई दिल्ली

संयुक्त ई-नीलामी विक्री सूचना

दियाला और शोभन अश्वना सहिता, 2016 (भासवित दियाला और शोभन अश्वना बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) दिनियम, 2016 के नियम 32) के तहत विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना सचित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (‘परिचय अधिनियम, 2002’) के नियम के तहत अचल संपत्तियों की विक्री

8 (6) के संदर्भ में परिपत्र IV-A के साथ पठित विवरण संशोधित के प्रतिभूतिकरण और पुनर्विभाग और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

कानिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)			
(यहां ‘कर्मचारी’ और ‘कार्पोरेट देदार’ के रूप में भी उल्लिखित)	सीआईएन: U31900DL2012PTC231966	पंजीकृत पता: डी-404, नानार्जुन अपार्टमेंट, म्यूटकुंड, दिल्ली-110096	परिसमापक: सीएफ कृष्ण भुगत
(आईबीबीआईई पंजीकरण: IBBI/PA-003/IP-NO0110/21/7-2018/11186)	परिसमापक का पता: 64, प्रथम तल, ओलाल एस्टेट, फ़ेज III, निरकट मोदी फ्लैट, नई दिल्ली-110020	संयुक्त: +91 8800865284 (श्री बरालम जी श्री बरालमकुमार)	
ईमेल: assetsale@aaainsoolvency.in , deepika.bhugra@gmail.com , kanik.electronics@aaainsoolvency.com			

एतद्धार कॉर्पोरेट देदार तथा कॉर्पोरेट वित्तियन सहित जनसमापन को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 6 के संदर्भ में पारित प्रतिभूतिकरण IV के साथ पठित संशोधित अधिनियम, 2002 के तहत संश्लेष का अंतिम अंग यथा पूर्व प्रतिभूत देदारों के पास शिवालिक देदार के कॉर्पोरेट गारंटर की पूर्ण संचित संयुक्त रूप से परिसमापन विवरण के विवरण 32 तथा आईबीबीआई के तहत परिसमापक द्वारा निहित पारिश्रमिक दियाला और शोभन अश्वना बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) दिनियम, 2016 (‘परिसमापन विवरण’) के साथ पठित संशोधित आयसत तथा दियाला, 2016 (‘आईबीबीआई’) की धारा 35(एफ) के तहत परिसमापन समझ का धाम निर्मित करने वाले कानिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की संश्लेषों की ‘जहाँ है जहाँ है’, ‘जो है वहाँ है’, ‘जो कुछ भी है वहाँ है’ तथा ‘आवर्ध नहल अयावर’ पर ई-नीलामी विक्री के लिए सूचना दी जाती है। विक्रय नई बोर्ड ने उल्लिखित है:

अध्याताओं के प्रतिभूतिकरण का संयुक्त विवरण:

परिसमापक का नाम: श्रीमती वीरका मुगुत; **deepika.bhugra@gmail.com**;
assetsale@aaainsoolvency.in; मेषाल संल संल: +918800865284
अध्याता: नाम: श्री नीलम महाजन; **ईमेल:** neeraj.mahajan@hdfcbank.com; **मेषाल संल:** +918800865284

वर्गिक	विवरण	आश्रित मूल्य	ईएमपी
A	दियाला और शोभन अश्वना सहिता, 2016 के प्रावधानों और विवरणों और संश्लेषों अधिनियम, 2002 के तहत मूल और शेषन वाले कॉर्पोरेट देदार की संपत्ति की विक्री।	2,33,41,922/-	23,34,192/-

B. आईबीबीआई, 2016 के तहत

5107 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के साथ फेडरटी परिसर में स्थित भवन, ग्राम नाम चंदन सिंह, तहसील कालाहूंगी, जिला नैनीताल, उतराखंड के खरस नंबर-19 एमाला, खत्री नंबर 0033 पर स्थित

B. आईबीबीआई, 2016 के तहत

5107 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के साथ फेडरटी परिसर में स्थित भवन, ग्राम नाम चंदन सिंह, तहसील कालाहूंगी, जिला नैनीताल, उतराखंड के खरस नंबर-19 मिन, खत्री नंबर 0033 पर स्थित पारसीवारी भी शामिल है।

इसके अलावा, परिसमापन शरंभ विधि यानी 12 अक्टूबर, 2020 को कॉर्पोरेट देदार की देदारियों का निपटार परिसमापक द्वारा सहिता की धारा 53(1) के तहत किया जाएगा।

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN: L18101RJ1992PLC006952

Registered Office: Village Jaipur, Jaipur-Sikar Road Place, Jaipur, Rajasthan 303 704 | Tel. No.: 01423-224001
Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.J. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan | Tel. No.: 0141-2361132
Contact Person: Mr. Pawan Kumar Kumawat, Company Secretary and Compliance Officer
Email: sec@mayur.biz | Website: www.mayuruniquoters.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

This public announcement (the “Post Buyback Public Announcement”) is being made in compliance with Regulation 24(V) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended from time to time (the “Buyback Regulations”). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated August 09, 2024 published on August 12, 2024 (the “Public Announcement”) and the Letter of Offer dated August 26, 2024 (the “Letter of Offer”). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUYBACK**

1.1 Mayur Uniquoters Limited (the “Company”) had announced the Buyback of up to 5,00,000 (Five Lakh) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 5/- (Rupees Five Only) each (“Equity Shares”) from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. Friday, August 23, 2024), on a proportionate basis, through the “Tender Offer” route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share payable in cash, for an aggregate amount of Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crores Only), excluding Transaction Cost (“Buyback Size”). The Buyback Size constituted 4.62% and 4.57% of the paid-up equity share capital and free reserves as per the latest standalone and consolidated audited financial statements of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2024 and was within the statutory limit of 10% under the Companies Act, 2013 (the “Act”) and represents 1.14% of the total number of equity shares in the total paid-up equity share capital of the Company.

1.2 The Company has adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the “Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange” notified by Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular/CFD/DCR2/CIR/P/16/131 dated December 9, 2016 and SEBI Circular/SEBI/IO/CFD/DCR/III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, including any amendments or regulatory modifications for the time being in force.

1.3 The Buy Back Offer was kept open from Thursday, August 29, 2024 to Wednesday, September 04, 2024.
- DETAILS OF THE BUYBACK**

2.1 5,00,000 (Five Lakh) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback is Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crores Only), excluding Transaction Cost.

2.3 The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited (“Registrar”), considered 37,441 valid applications for 64,31,368 Equity Shares in response to the Buy Back offer in the subscription of approximately 12.86 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	75,000	34,658	5,39,169	718.89%
General Category for all other Equity Shareholders	4,25,000	2,783	58,92,199	1386.40%
Total	5,00,000	37,441	64,31,368	1286.27%

2.4 All valid applications were considered for the purpose of acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar via e-mail to the relevant eligible Equity Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or the depositories) on September 11, 2024. In cases where email IDs were not registered with the Company or the depositories and email bounce cases, physical letters of acceptance/rejection has been dispatched to the Eligible Shareholders on September 12, 2024 by the Registrar.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited on September 11, 2024. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/Reserv Bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.6 Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company’s demat account on September 11, 2024. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders/lien removed by Clearing Corporation on September 11, 2024.

2.7 The extinguishment of 5,00,000 Equity Shares accepted under the Buy Back, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before September 23, 2024.

2.8 The Company and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**

3.1 The capital structure and the Company, pre and post Buyback is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback ⁽¹⁾	
		No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)
1.	Authorized Share Capital				
		Rs. 25,00,00,000 divided into 5,00,00,000 Equity Shares of face value Rs 5/- each	2,500.00	Rs. 25,00,00,000 divided into 5,00,00,000 Equity Shares of face value Rs 5/- each	2,500.00
		Rs. 61,00,00,000 divided into 15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6,100.00	Rs. 61,00,00,000 Divided into 15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6,100.00
	Total	8,600.00	8,600.00	Total	8,600.00
2.	Issued, Subscribed and Paid up Capital				
		4,39,52,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2,197.63	4,34,52,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2,172.63
	Total	2,197.63	Total	2,172.63	

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares
- Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity shares bought back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares ⁽¹⁾ (%)
1.	Suresh Kumar Poddar	1,81,569	36.31	0.42
2.	Manav Poddar	71,522	14.30	0.17
3.	Puja Poddar	7,074	1.42	0.02
4.	ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund	6,023	1.21	0.01
	TOTAL	2,66,188	53.24	0.61

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares

3.3 The Shareholding Pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback ⁽¹⁾	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoter & Promoter Group	2,57,20,206	58.52	2,54,59,290	58.59
Foreign Investors (OCBs/ FIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies)	29,75,641	6.77	1,79,93,310	41.41
Indian Financial Institutions/ Banks/Mutual Funds/ Government Companies	13,47,676	3.07		
Others (Individuals, Bodies Corporate, Employees, etc.)	1,39,09,077	31.65		
Total	4,39,52,600	100.00	4,34,52,600	100.00

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares

INTERARCH BUILDING PRODUCTS LIMITED
(formerly known as Interarch Building Products Private Limited)

CIN:U45201DL1983PLC017029

Regd. Office: Farm No. 8, Khasra No. 56/23/2, Dera Mandi Road, Mandi Village
Tehsil Mehrauli, New Delhi-110047, India
Phone No: 91 120 4170200, Website: www.interarchbuildings.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Three Months Ended			
		30.06.2024		31.03.2024	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
I	Total Income	30,638.41	39,023.61	29,684.39	1,30,631.44
II	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,736.11	3,989.55	2,588.57	11,588.88
III	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,736.11	3,989.55	2,588.57	11,588.88
IV	Net Profit for the period after tax	2,027.95	2,969.63	1,939.51	8,626.20
V	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive Income/(loss) (after tax)]	2,029.97	2,994.35	1,918.83	8,634.27
VI	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10/- per share, fully paid)	1,441.59	1,441.59	1,500.06	1,441.59
VII	Other equity				43,020.87
VIII	Basic and Diluted Earnings per share (Face value of ₹ 10/- per share)*	14.07	20.60	12.93	59.84

*Not annualized except year ended

1 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended (the “Listing

भरतपुर टीम का राज्यस्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश

आशीष प्रजापत बने लगातार चौथे मैच में मैन ऑफ द मैच

भरतपुर (प्रा.सं.)। राज्यस्तरीय क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जयपुर में आयोजित की जा रही राज्यस्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भरतपुर की टीम ने सीकर की टीम को 9 विकेट से हराते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की एवं राज्यस्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया की प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच दो दिवसीय सीकर से जयपुर के एसआर सैनी क्रिकेट मैदान पर खेले गए मुकाबले में भरतपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का



निर्णय लिया मैच में सीकर की टीम पहली पारी मात्र 106 रन पर आउट हो गई भरतपुर की तरफ से पहली पारी में राज वाल्मीकि ने 11 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट व आशीष प्रजापत ने 15 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए इसके अलावा कुश सोलंकी और तनिष्क खंडेलवाल एक-एक

विकेट लिए भरतपुर की टीम ने अपनी पहली पारी में 178 रन बनाते हुए 72 रन की बढ़त बना ली थी भरतपुर की तरफ से इस तरफ छूव ने 62 रन व आशीष प्रजापत ने 28 रन बनाए बाद में

भरतपुर ने सीकर की दूसरी पारी मात्र 82 रन पर आउट कर दिया। आशीष प्रजापत की घातक गेंदबाजी के तुफान के सामने सीकर की टीम ढेर हो गई आशीष ने 15 ओवर में 28 रन देकर 5 विकेट लिए तथा कुश सोलंकी ने भी 3 विकेट लिए तथा राज वाल्मीकि व तनिष्क खंडेलवाल ने एक-एक विकेट लिया बाद में सीकर की टीम ने भरतपुर टीम की 72 रनों की बढ़त को उतार दिए मात्र 10 रनों का जीत के लिए टारगेट दिया

बाद में यह मैच भरतपुर की टीम ने एक विकेट छोड़ कर 9 विकेट से जीत लिया और राज्यस्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया मैच का मैन ऑफ द मैच आशीष प्रजापत को घोषित किया गया। आशीष ने पूरे मैच में 8 विकेट अपने नाम किये व 28 रन भी बनाए थे भरतपुर की टीम फाइनल में अजमेर व धौलपुर की विजेता टीम से खेलेगी फाइनल मैच तीन दिवसीय 14, 15 और 16 सितंबर को जयपुर के एसएसएम स्टेडियम पर होगा।

खजुरियों का खेड़ा में अतिक्रमियों के हौसेले बुलंद चरनोट भूमि पर कर रहे हैं पक्का निर्माण

भींडर (प्रातःकाल संवाददाता)। नगरपालिका के वार्ड नं 6 खजुरियों का खेड़ा के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चरनोट भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि खजुरियों का खेड़ा पटवार हल्का भींडर में चरनोट भूमि स्थित है जहां पर खजुरियों का खेड़ा, वीरवालियों का खेड़ा, जूना खेड़ा, शिकारवाड़ी, कल्कीपुरा आदि गांवों के मवेशी कई सालों से चरने आते हैं।

अनुजा निगम के ऋण हेतु 31 अक्टूबर तक किये जा सकेंगे आवेदन

अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए किया जा सकता है आवेदन जयपुर (कासं.)। राज्यस्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के सौजन्य से क्रियान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाईकर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा एवं दिव्यांगजनों को विभिन्न उद्योगों, व्यवसाय एवं सेवा कार्य में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु आनलाइन आवेदन अब 31 अक्टूबर 2024 तक किये जा सकेंगे।

अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि निगम द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 करने का निर्णय लिया गया है। जिसके बाद अब इच्छुक आवेदक एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा पोर्टल पर ऋण हेतु 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी हेतु स्थानीय पंचायत समिति, नगर पालिका कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

तारबंदी हटाई तो मचा बवाल, पेट्रोल की बोतल लेकर जीप पर चढ़े महंत

भीलवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। रीको ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण बतारक वहां करवाई गई तार बंदी को बुधवार सुबह हटवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान पहुंचे महंत ने तार बंदी मंदिर की जमीन की बताते हुये विरोध किया और पेट्रोल की बोतल लेकर जीप पर चढ़ गये। करीब तीन घंटे चले इस घटनाक्रम के बाद हटाई गई तारबंदी को वापस रिपेयर करवाया जा रहा है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह के अनुसार, चित्तौड़गढ़ रोड पर पूर्व में एक फैंकट्री थी, जो अब रीको अब रीको के अधीन है। इस फैंकट्री परिसर में बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है, जहां भूतगिरी महाराज इस मंदिर की सेवा करने लगे। मंदिर के आस-पास तारबंदी भी करवा दी। जबकि इनके पास इस जमीन के कोई दस्तावेज भी नहीं है। ऐसे में रीको



ने उक्त तारबंदी को अतिक्रमण मानते हुये बुधवार सुबह तहसीलदार, हमीरगढ़ व पुलिस की मौजूदगी में हटवा दिया। इसके बाद सभी अधिकारी भी लौट गये। पीछे से भूतगिरी महाराज जीप लेकर मौके पर पहुंचे और जीप पर चढ़ गये। उन्होंने अपने उपर पेट्रोल छिड़क लिया। इसकी सूचना मिलने पर अधिकारी पुनः मौके पर पहुंचे और भूतगिरी महाराज को समझाने का प्रयास किया तो वे हटाई गई तारबंदी को पुनः रिपेयर करने की मांग करने लगे।

हिंदी महोत्सव के विजेताओं का पुरस्कार वितरण समारोह कल

डीग (प्रा.सं.)। हिंदी पुस्तक समिति के अरुण सभागार में हिंदी महोत्सव के 8वें दिन आयोजित अल्पना रंगोली का शुभारम्भ सुरेंद्र शर्मा सार्थक ने माँ शारदा की पूजा अर्चना कर किया। इस प्रतियोगिता में 22 प्रतियोगियों ने भाग लिया जिसमें भावना पुत्री धर्मवीर व भावना पुत्री मूलचंद ने प्रथम व अनुष्का व शिखा शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये दोनों ही स्थान लाला मनोहर लाल राउमा विद्यालय को गए। अब तक हुई सभी प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार हिंदी दिवस 14 सितंबर को होने वाले मुख्य समारोह में प्रातः 9.30 बजे प्रदान दिए जायेंगे। इस समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ. हेमा देवरानी प्राचार्य अग्रसेन महिला महाविद्यालय खेडली होंगी। विशिष्ट अतिथि इंजी. लक्ष्मण प्रसाद शर्मा प्रमुख समाज सेवा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा श्वेद प्रसिद्ध कवि और लेखक होंगे। इसी क्रम में हिंदी दिवस पर ही सायं 3.30 बजे राज्यस्तरीय साहित्य अकादमी उदयपुर एवं श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डीग के संयुक्त तत्वाधान में काव्य गोष्ठी होगी जिसके मुख्य अतिथि सुरेश चंद गुप्ता पूर्व प्राचार्य कॉलेज शिक्षा होंगे तथा अध्यक्षता अमरनाथ गुप्ता पूर्व अध्यक्ष हिंदी पुस्तकालय समिति डीग करेंगे। इस कवि गोष्ठी में सुरेंद्र सार्थक अउ, मनीष मनु, वेदप्रकाश वेद नगर, पंकज प्रखर कामा, सुनील सरल, मनोज मनु डीग व पूनम शर्मा बहज काव्य पाठ करेंगे।

लगातार वर्षा के मद्देनजर सभी विभाग एवं एसडीआरएफ टीम रहें अलर्ट मोड पर: यादव

भरतपुर (प्रा.सं.)। जिले में लगातार वर्षा के हालात को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने सभी विभागों एवं एसडीआरएफ टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को आवश्यक संसाधनों के साथ आवश्यकता पडने पर बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि लगातार वर्षा को देखते हुए जिले में प्रवाहित हो रही नदियों के तटीय क्षेत्रों में बसे गांवों एवं जलाशयों के नजदीक रहने वाले नागरिकों को सावचेत रहने के लिए स्थानीय पटवारी एव ग्राम विकास अधिकारी एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि नदियों में पानी के तेज बहाव को देखते हुए नदी के बहाव क्षेत्र एवं जलाशयों के आसपास आमजन को नहीं जाने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने आमजन को जल बहाव क्षेत्र में पानी की आवक

को देखते हुए संसाधनों को हटाने, महिलाओं, बच्चों को इस दौरान नदियों व जलाशयों के आसपास नहीं जाने देने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने लगातार बरसात एवं गम्भीर नदी में पांचना बांध से पानी छोड़े जाने, अजान बांध एवं चिकसाना बांध, बंध बरौटा से पानी की लगातार निकासी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम, जल संसाधन विभाग, पंचायतीराज विभाग, चिकित्सा विभाग एवं जिले के सभी उपखण्ड प्रशासन को मय आवश्यक संसाधनों के अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। ये रास्ते हुए प्रभावित-अधिशापी अभियंता जल संसाधन बनीसिंह ने बताया कि गम्भीर नदी में पानी की अधिक आवक, चिकसाना, अजान एवं बंध बरौटा से पानी की निकासी तथा लगातार वर्षा होने के कारण बसेडी से बयानाए खेडिया मोड से सेवला एवं चिकसाना से हतमपुर के रास्ते अवरूद्ध हो गये है जिन पर आमजन को जाने से बचने की अपील की गई है।

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN: L15101RJ 992PLC008952
 Registered Office: Village Jaitpur, Jaipur-Sikar Road Place, Jaipur, Rajasthan 303 704 | Tel. No.: 01423-224001
 Corporate Office: 28, 4th Floor, Laxmi Complex, M.I. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan | Tel. No.: 0141-2361132
 Contact Person: Mr. Pawan Kumar Kumawat, Company Secretary and Compliance Officer
 Email: sec@mayer.biz | Website: www.mayeruniquoters.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

This public announcement (the 'Post Buyback Public Announcement') is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended from time to time (the 'Buyback Regulations'). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated August 09, 2024, published on August 12, 2024 (the 'Public Announcement') and the Letter of Offer dated August 26, 2024 (the 'Letter of Offer'). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUYBACK**
 - Mayur Uniquoters Limited (the 'Company') had announced the Buyback of up to 5,00,000 (Five Lakh) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 5/- (Rupees Five Only) each ('Equity Shares') from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. Friday, August 23, 2024), on a proportionate basis, through the 'Tender Offer' route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crores Only), excluding Transaction Cost ('Buyback Size'). The Buyback Size constituted 4.62% and 4.57% of the paid-up equity share capital and free reserves as per the latest stand-alone and consolidated audited financial statements of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2024 and was within the statutory limit of 10% under the Companies Act, 2013 (the 'Act') and represents 1.14% of the total number of equity shares in the total paid-up equity share capital of the Company.
 - The Company has adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the 'Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange' notified by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/12015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular: CFD/DCR/2/C/R/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DOR-1/IC/R/P/2021/615 dated August 13, 2021, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
 - The Buy Back Offer was kept open from Thursday, August 29, 2024 to Wednesday, September 04, 2024.
- DETAILS OF THE BUYBACK**
 - 5,00,000 (Five Lakh) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share.
 - The total amount utilized in the Buyback is Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crores Only), excluding Transaction Cost.
 - The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ('Registrar'), considered 37,441 valid applications for 64,31,368 Equity Shares in response to the Buy Back offer resulting in the subscription of approximately 12.88 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	75,000	34,658	5,39,169	718.89%
General Category for all other Equity Shareholders	4,25,000	2,783	58,92,199	1386.42%
Total	5,00,000	37,441	64,31,368	1286.27%
- All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar via e-mail to the relevant eligible Equity Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or the depositories) on September 11, 2024. In cases where email IDs were not registered with the Company or the depositories and email bounce cases, physical letters of acceptance/rejection has been dispatched to the Eligible Shareholders on September 12, 2024 by the Registrar.
- The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited on September 11, 2024. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/Relevant Bank due to any reason, such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on September 11, 2024. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders/lien removed by Clearing Corporation on September 11, 2024.
- The extinguishment of 5,00,000 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before September 23, 2024.
- The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**
- The capital structure of the Company, pre and post Buy Back is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback ⁽¹⁾	
		No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)	No. of Shares	Amount (Rs. Lacs)
1.	Authorized Share Capital	Rs. 25,00,00,000 divided into 5,00,00,000 Equity Shares of face value Rs. 5/- each	2,500.00	Rs. 25,00,00,000 divided into 5,00,00,000 Equity Shares of face value Rs. 5/- each	2,500.00
		Rs. 61,00,00,000 divided into 15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6,100.00	Rs. 61,00,00,000 divided into 15,25,000 Compulsory Convertible Participating Preference Shares of Rs. 400/- each	6,100.00
		Total	8,600.00	Total	8,600.00
2.	Issued, Subscribed and Paid up Capital	4,39,52,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2,197.63	4,34,52,600 Equity Shares of Rs. 5/- each	2,172.63
		Total	2,197.63	Total	2,172.63

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares

- Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity shares bought back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares ⁽¹⁾ (%)
1.	Suresh Kumar Poddar	1,81,569	36.31	0.42
2.	Manav Poddar	71,522	14.30	0.17
3.	Puja Poddar	7,074	1.42	0.02
4.	ICIPI Prudential Dividend Yield Equity Fund	6,023	1.21	0.01
	TOTAL	2,66,188	53.24	0.61

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares

- The Shareholding Pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback ⁽¹⁾	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoter & Promoter Group	2,57,22,206	58.52	2,54,59,290	58.59
Foreign Investors /OCBs/ FPIs/NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies)	29,75,641	6.77	1,79,93,310	41.41
Indian Financial Institutions/Banks/Mutual Funds/ Government Companies	13,47,676	3.07		
Others (Individuals, Bodies Corporate, Employees, etc.)	1,39,09,077	31.65		
Total	4,39,52,600	100.00		

(1) Subject to extinguishment of 5,00,000 Equity Shares